

MP STATE BADMINTON ACADEMY

Residential Training & Selection Policy

(Grassroot to Elite High-Performance Framework)

1. Objective (उद्देश्य)

इस policy का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश एवं देश के प्रतिभाशाली बैडमिंटन खिलाड़ियों की पहचान करना, उन्हें वैज्ञानिक एवं उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करना तथा structured pathway के माध्यम से elite स्तर तक विकसित करना है।

प्रमुख उद्देश्य:

- Grassroot level पर talent identification
- High-performance badminton ecosystem का निर्माण
- Performance, fitness एवं skill का balanced evaluation
- खिलाड़ियों को State, National एवं International स्तर के लिए तैयार करना
- Long-Term Athlete Development (LTAD) Model लागू करना
- Scientific coaching एवं sports science integration
- Medal-winning culture विकसित करना
- Olympic एवं International standard athlete development framework तैयार करना

2. Nature of Scheme (योजना का स्वरूप)

यह एक पूर्णकालिक (Full-Time) Residential High-Performance Training Program होगा।

मुख्य विशेषताएँ:

- चयनित खिलाड़ियों का academy campus में रहना अनिवार्य होगा
- Structured daily training एवं recovery schedule लागू होगा
- Coaching, fitness, recovery एवं tournament planning का integration
- Sports science एवं video analytics support
- Holistic athlete development framework लागू होगा

Athlete Development Components

- Technical Development
- Tactical Development
- Physical Conditioning
- Mental Conditioning
- Nutrition Management
- Recovery Management
- Lifestyle & Discipline Management
- Competition Readiness

3. Age Categories, DOB Criteria & Eligibility

(आयु वर्ग, जन्मतिथि मानदंड एवं पात्रता)

Category	Age Group	DOB Criteria (Current Session)	Eligibility
U-13	Under 13	01 January 2014 या उसके बाद जन्म केवल U-13 खिलाड़ी	
U-15	Under 15	01 January 2012 या उसके बाद जन्म केवल U-15 खिलाड़ी	
U-17	Under 17	01 January 2010 या उसके बाद जन्म केवल U-17 खिलाड़ी	
U-19	Under 19	01 January 2008 या उसके बाद जन्म केवल U-19 खिलाड़ी	
Senior (Men)	Open	कोई DOB सीमा नहीं	पुरुष खिलाड़ी
Senior (Women)	Open	कोई DOB सीमा नहीं	महिला खिलाड़ी

Important Rules (महत्वपूर्ण नियम)

- सभी आयु वर्गों के लिए DOB नियम Badminton Association of India (BAI) के अनुसार लागू होंगे
- प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी cut-off date मानी जाएगी
- खिलाड़ी की आयु 1 जनवरी के आधार पर calculate की जाएगी
- केवल निर्धारित DOB criteria fulfill करने वाले खिलाड़ी पात्र होंगे

Valid Age Proof Documents

- Birth Certificate
 - Aadhaar Card
 - School Certificate
-

Important Note (महत्वपूर्ण सूचना)

- यदि BAI भविष्य में DOB criteria में संशोधन करता है, तो updated rules स्वतः लागू माने जाएंगे
 - गलत DOB या forged documents पाए जाने पर तत्काल disqualification होगा
-

4. Selection Pathway (चयन प्रक्रिया)

A. Direct Entry Players

निम्न प्रदर्शन वाले खिलाड़ी सीधे Final Selection Trials में पात्र होंगे:

District Level

- Singles: Semi-finalist एवं उससे ऊपर
- Doubles: Finalist एवं उससे ऊपर

Division Level

- Singles: Semi-finalist एवं उससे ऊपर
- Doubles: Finalist एवं उससे ऊपर

State Level

- Pre-Quarterfinalist एवं उससे ऊपर
-

B. Open Trial Players

- खिलाड़ियों को Division Level Trials में भाग लेना अनिवार्य होगा
 - Qualified खिलाड़ियों को Final Selection Trials हेतु बुलाया जाएगा
-

5. Trial Structure

Phase Description

Phase 1 Division Trials – Screening एवं Shortlisting

Phase 2 Final Selection Trials – Final Evaluation एवं Merit Preparation

6. Evaluation Criteria (कुल अंक: 100)

Component	Marks	Description
Certificate Performance	30	पूर्व उपलब्धियाँ
Fitness Test	30	शारीरिक क्षमता
Skill Test	40	खेल कौशल
Total	100	अंतिम चयन

7. Certificate Performance System (30 Marks)

General Rules

- अधिकतम 3 सर्वश्रेष्ठ certificates ही मान्य होंगे
- अधिकतम अंक 30 होंगे
- प्राथमिकता क्रम:
Winner > Runner-up > Semi-finalist > Participation

स्तर प्राथमिकता:

International > National > School National > State > Division > District

Certificate Merit Distribution

A. District / Division / State Level

Tournament Level Participation Semi-finalist Runner-up Winner

District	2	4	5	6
Division	4	6	8	9
State	6	9	11	12

B. School National Level

(CBSE / SGFI / KVS / Khelo India School Games)

Achievement Marks

Participation	10
Semi-finalist	12
Runner-up	13
Winner	14

C. National Level

(Federation Nationals & All India Ranking Tournaments)

Achievement Marks

Participation	12
Semi-finalist	14
Runner-up	15
Winner	16

D. University / Zonal Level

Tournament Participation Semi-finalist Runner-up Winner

Inter-University	10	13	14	15
North Zone	8	10	11	12
Khelo India University Games	10	13	14	15
All India Universities	10	13	14	15

E. International Level – Senior

Tournament	Participation	Semi-finalist	Runner-up	Winner
BWF Super 100	12	14	15	16
BWF Super 300	13	15	16	17
BWF Super 500	14	16	17	18
BWF Super 750	15	17	18	19
BWF Super 1000	16	18	19	20

F. International Level – Junior (U-19)

Included Tournaments

- World Junior Championships
- Junior International Grand Prix
- Junior International Challenge
- Junior International Series

Tournament	Participation	Semi-finalist	Runner-up	Winner
World Junior Championships	14	16	18	20
Junior International Grand Prix	13	15	17	18
Junior International Challenge	12	14	16	17
Junior International Series	11	13	15	16

8. Fitness Test System (30 Marks)

Fitness Test Distribution

Test	Component	Marks
30m Flying Start	Speed	4
T-Test	Agility & Change of Direction	4
Standing Broad Jump	Explosive Power	4
1600m Run	Aerobic Endurance	6
Sit-Ups	Core Strength Endurance	3
Push-Ups	Upper Body Strength	3
Pull-Ups / Skipping	Functional Strength / Coordination	3
Sit & Reach	Flexibility	3
Total		30

General Fitness Testing Rules

- सभी खिलाड़ियों के लिए warm-up mandatory होगा
- Electronic timing system को प्राथमिकता दी जाएगी
- Medical unfit खिलाड़ियों को test देने की अनुमति नहीं होगी
- Improper form पर repetitions count नहीं होंगे
- Fitness staff का निर्णय अंतिम होगा
- Safety एवं injury prevention protocols लागू होंगे

1. 30m Flying Start Test (Speed) – 4 Marks

Boys Standards

Category Excellent (4) Good (3) Average (2) Below Avg (1)

U-13	≤3.60	3.61–3.80	3.81–4.00	>4.00
U-15	≤3.40	3.41–3.60	3.61–3.80	>3.80
U-17	≤3.25	3.26–3.45	3.46–3.65	>3.65
U-19	≤3.15	3.16–3.35	3.36–3.55	>3.55
Senior	≤3.05	3.06–3.25	3.26–3.45	>3.45

Girls Standards

Category Excellent (4) Good (3) Average (2) Below Avg (1)

U-13	≤3.90	3.91–4.10	4.11–4.30	>4.30
U-15	≤3.70	3.71–3.90	3.91–4.10	>4.10
U-17	≤3.55	3.56–3.75	3.76–3.95	>3.95
U-19	≤3.45	3.46–3.65	3.66–3.85	>3.85
Senior	≤3.35	3.36–3.55	3.56–3.75	>3.75

2. T-Test (Agility) – 4 Marks

Boys Standards

Category Excellent (4) Good (3) Average (2) Below Avg (1)

U-13	≤11.5	11.6–12.2	12.3–13.0	>13.0
U-15	≤10.8	10.9–11.4	11.5–12.0	>12.0
U-17	≤10.3	10.4–10.9	11.0–11.5	>11.5
U-19	≤10.0	10.1–10.5	10.6–11.0	>11.0
Senior	≤9.80	9.81–10.20	10.21–10.60	>10.60

Girls Standards

Category Excellent (4) Good (3) Average (2) Below Avg (1)

U-13	≤12.2	12.3–12.9	13.0–13.6	>13.6
U-15	≤11.5	11.6–12.1	12.2–12.7	>12.7
U-17	≤11.0	11.1–11.6	11.7–12.2	>12.2
U-19	≤10.7	10.8–11.2	11.3–11.7	>11.7
Senior	≤10.5	10.6–11.0	11.1–11.5	>11.5

3. Standing Broad Jump (Power) – 4 Marks

Boys Standards

Category Excellent (4) Good (3) Average (2) Below Avg (1)

U-13	≥1.80m	1.60–1.79	1.40–1.59	<1.40
U-15	≥2.00m	1.80–1.99	1.60–1.79	<1.60
U-17	≥2.20m	2.00–2.19	1.80–1.99	<1.80
U-19	≥2.30m	2.10–2.29	1.90–2.09	<1.90
Senior	≥2.40m	2.20–2.39	2.00–2.19	<2.00

Girls Standards

Category Excellent (4) Good (3) Average (2) Below Avg (1)

U-13	≥1.60m	1.40–1.59	1.20–1.39	<1.20
U-15	≥1.80m	1.60–1.79	1.40–1.59	<1.40
U-17	≥1.95m	1.75–1.94	1.55–1.74	<1.55
U-19	≥2.05m	1.85–2.04	1.65–1.84	<1.65
Senior	≥2.10m	1.90–2.09	1.70–1.89	<1.70

4. 1600m Run Test (Endurance) – 6 Marks

Boys Standards

Category Excellent (6) Good (4) Average (2) Below Avg (1)

U-13	≤6:20	6:21–6:50	6:51–7:20	>7:20
U-15	≤5:50	5:51–6:20	6:21–6:50	>6:50
U-17	≤5:25	5:26–5:55	5:56–6:25	>6:25
U-19	≤5:10	5:11–5:40	5:41–6:10	>6:10
Senior	≤4:55	4:56–5:20	5:21–5:45	>5:45

Girls Standards

Category Excellent (6) Good (4) Average (2) Below Avg (1)

U-13	≤7:00	7:01–7:30	7:31–8:00	>8:00
U-15	≤6:30	6:31–7:00	7:01–7:30	>7:30
U-17	≤6:05	6:06–6:35	6:36–7:05	>7:05
U-19	≤5:45	5:46–6:15	6:16–6:45	>6:45
Senior	≤5:30	5:31–5:55	5:56–6:20	>6:20

5. Sit-Ups Test (Core Strength) – 3 Marks

Boys Standards

Category Excellent (3) Good (2) Average (1) Poor (0)

U-13	35+	28–34	20–27	<20
U-15	40+	32–39	24–31	<24
U-17	45+	36–44	28–35	<28
U-19	50+	40–49	30–39	<30

Category Excellent (3) Good (2) Average (1) Poor (0)

Senior	55+	45–54	35–44	<35
--------	-----	-------	-------	-----

 **Girls Standards**

Category Excellent (3) Good (2) Average (1) Poor (0)

U-13	30+	24–29	18–23	<18
U-15	35+	28–34	20–27	<20
U-17	40+	32–39	24–31	<24
U-19	45+	36–44	28–35	<28
Senior	50+	40–49	32–39	<32

6. Push-Ups Test (Upper Body Strength) – 3 Marks

 **Boys Standards**

Category Excellent (3) Good (2) Average (1) Poor (0)

U-13	22+	16–21	10–15	<10
U-15	28+	20–27	12–19	<12
U-17	32+	24–31	14–23	<14
U-19	36+	28–35	16–27	<16
Senior	40+	32–39	20–31	<20

 **Girls Standards**

Category Excellent (3) Good (2) Average (1) Poor (0)

U-13	16+	12–15	8–11	<8
U-15	20+	15–19	10–14	<10
U-17	24+	18–23	12–17	<12
U-19	28+	20–27	14–19	<14
Senior	32+	24–31	16–23	<16

7. Pull-Ups / Skipping Test – 3 Marks

 **Boys – Pull-Ups Standards**

Category Excellent (3) Good (2) Average (1) Poor (0)

U-13	8+	5–7	2–4	<2
U-15	10+	7–9	3–6	<3

Category Excellent (3) Good (2) Average (1) Poor (0)

U-17	12+	8–11	4–7	<4
U-19	14+	10–13	5–9	<5
Senior	16+	12–15	6–11	<6

 **Girls – Skipping Test (1 Minute)**

Category Excellent (3) Good (2) Average (1) Poor (0)

U-13	110+	90–109	70–89	<70
U-15	120+	100–119	80–99	<80
U-17	130+	110–129	90–109	<90
U-19	140+	120–139	100–119	<100
Senior	150+	130–149	110–129	<110

8. Sit & Reach Test (Flexibility) – 3 Marks

 **Boys Standards**

Category Excellent (3) Good (2) Average (1) Poor (0)

U-13	16cm+	11–15cm	6–10cm	<6cm
U-15	18cm+	13–17cm	8–12cm	<8cm
U-17	20cm+	15–19cm	10–14cm	<10cm
U-19	22cm+	16–21cm	11–15cm	<11cm
Senior	24cm+	18–23cm	12–17cm	<12cm

 **Girls Standards**

Category Excellent (3) Good (2) Average (1) Poor (0)

U-13	18cm+	13–17cm	8–12cm	<8cm
U-15	20cm+	15–19cm	10–14cm	<10cm
U-17	22cm+	17–21cm	12–16cm	<12cm
U-19	24cm+	18–23cm	13–17cm	<13cm
Senior	26cm+	20–25cm	14–19cm	<14cm

9. Skill Test (40 Marks)

Component	Marks
Stroke Accuracy	15
Footwork & Movement	15
Match Play	10

Detailed Skill Evaluation

Stroke Accuracy

- Net Control
- Smash Accuracy
- Drop Placement
- Clear & Lift Consistency

Footwork & Movement

- Court Coverage
- Recovery Speed
- Balance & Coordination

Match Play

- Tactical Awareness
- Shot Selection
- Match Temperament
- Pressure Handling

10. Final Selection Criteria

- Total 100 marks के आधार पर final selection होगा
- Boys एवं Girls की अलग merit list तैयार होगी

Tie-Break Criteria

1. Skill Marks
2. Fitness Marks
3. Higher Level Performance
4. Match Play Result

11. Boarding Distribution

Category	Seats
Boarding Boys	16

Category	Seats
----------	-------

Boarding Girls	8
----------------	---

Day Boarding Boys	4
-------------------	---

Day Boarding Girls	4
--------------------	---

12. Gender Ratio

Gender Ratio

Boys	62.5%
------	-------

Girls	37.5%
-------	-------

13. Other State Quota (20%)

- कुल 24 boarding seats में अधिकतम 5 खिलाड़ी अन्य राज्यों से चयनित किए जा सकते हैं
 - केवल Boarding Category पर लागू होगा
 - Same selection criteria लागू होगा
 - NOC mandatory होगी
 - Vacant seats की स्थिति में MP players को प्राथमिकता दी जाएगी
-

14. Facilities & Support

- High-performance coaching
 - Scientific training system
 - Equipment support
 - Tournament exposure
 - Video analytics system
 - Recovery एवं rehabilitation support
 - International standard courts
 - Strength & Conditioning Gym
 - Recovery Zone एवं Ice Bath Facility
-

15. Sports Science & Athlete Support

- Strength & Conditioning Coach
- Sports Physiotherapist
- Sports Nutritionist
- Sports Psychologist

- Performance Analyst
-

16. Nutrition Support

- Personalized diet plans
 - Hydration protocols
 - Competition nutrition support
 - Supplement monitoring
 - Recovery nutrition management
-

17. Recovery & Injury Prevention

- Ice bath recovery
 - Stretching protocols
 - Foam rolling sessions
 - Injury screening system
 - Sleep recovery monitoring
 - Rehabilitation protocols
-

18. Medical Support

- Physiotherapy
 - Injury Rehabilitation
 - Recovery Management
 - Insurance Cover
 - Periodic Medical Screening
-

19. Athlete Development

- Sports Psychology
 - Leadership Training
 - Career Guidance
 - Tactical Development
 - Match Analysis Sessions
 - Media एवं Communication Awareness
-

20. Education Support

- School / College Coordination
 - Academic Flexibility Support
-

21. Tournament Management

- Tournament Planning
 - Travel Coordination
 - Competition Scheduling
 - Tournament performance analysis
-

22. International Exposure

- Foreign Training Camps
 - International Tours
 - Joint training camps with elite academies
-

23. Incentives

- Medal Rewards
 - Performance Recognition Awards
 - Scholarship Support
 - International exposure incentives
-

24. Attendance Policy

- Minimum 90% attendance mandatory होगी
 - Unauthorized absence disciplinary action के अंतर्गत आएगी
 - लगातार अनुपस्थिति पर seat cancellation संभव होगी
-
-

27. Data Privacy & Confidentiality

- खिलाड़ियों का medical एवं performance data confidential रहेगा
 - Data केवल authorized academy officials द्वारा उपयोग किया जाएगा
-

28. Required Documents

- Aadhaar Card
- Birth Certificate
- Tournament Certificates

- Medical Certificate
 - School / College Certificate
 - NOC (Other State Players)
-

29. Rules & Regulations

- Fake documents → Immediate Disqualification
 - Late entry → Not allowed
 - Misconduct → Disciplinary action
 - Doping → Immediate suspension एवं disqualification
-

30. Seat Adjustment Policy

- Merit एवं category requirement के अनुसार seat adjustment किया जा सकता है
-

31. Appeal & Grievance Redressal System

- Result publication के 48 घंटे के भीतर appeal स्वीकार की जाएगी
 - Appeal review committee द्वारा जांच की जाएगी
 - Video footage एवं official score sheets review किए जा सकते हैं
 - Committee का निर्णय अंतिम होगा
-

32. Transparency Measures

- Open trial system
 - Real-time scoring
 - Signed score sheets
 - Merit-based evaluation only
 - Conflict of interest policy mandatory
 - Trial video recording system
-

34. Probation & Retention Policy

- चयनित खिलाड़ियों को प्रारंभिक 3-month probation पर रखा जा सकता है
 - हर 6 माह पर performance review होगा
 - लगातार poor progress पर exit process लागू की जा सकती है
-

35. Exit Policy

Exit Policy

एमपी स्टेट बैडमिंटन एकेडमी, ग्वालियर

एमपी स्टेट बैडमिंटन एकेडमी एक उच्च-प्रदर्शन (High Performance) आधारित प्रणाली पर कार्य करती है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का विकास करना है। खेल उत्कृष्टता, अनुशासन एवं सरकारी संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित परिस्थितियों में खिलाड़ियों को एकेडमी से निष्कासित (Exit) किया जा सकता है:

1. प्रशासनिक विवेकाधीन अधिकार (Administrative Discretionary Power)

एकेडमी प्रशासन को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह समय-समय पर किसी भी खिलाड़ी की सदस्यता की समीक्षा कर सके। यदि यह पाया जाता है कि खिलाड़ी एकेडमी के विजन, उद्देश्यों या प्रदर्शन मानकों के अनुरूप नहीं है, तो एकेडमी प्रमुख/निदेशक को उसे कार्यमुक्त (Exit) करने का पूर्ण अधिकार होगा। यह निर्णय उपलब्ध डेटा, प्रदर्शन विश्लेषण एवं आंतरिक फीडबैक के आधार पर लिया जाएगा।

2. खेल प्रदर्शन एवं प्रगति मानक (Performance & Progress Standards)

प्रत्येक खिलाड़ी के लिए एक विस्तृत Performance Monitoring System लागू किया जाएगा, जिसमें निम्न बिंदुओं का मूल्यांकन किया जाएगा:

प्रतियोगिता प्रदर्शन (Match Results)
तकनीकी कौशल (Skill Development)
शारीरिक फिटनेस (Fitness Benchmarks)
राज्य/राष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार

यदि लगातार 6 माह की अवधि में खिलाड़ी के प्रदर्शन, रैंकिंग या कौशल स्तर में संतोषजनक सुधार नहीं पाया जाता है, तो इसे "प्रगति की कमी" माना जाएगा और निष्कासन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है।

3. शून्य-सहिष्णुता अनुशासन नीति (Zero-Tolerance Discipline Policy)

एकेडमी में अनुशासन सर्वोपरि होगा। निम्नलिखित कृत्य गंभीर उल्लंघन माने जाएंगे:

एकेडमी संपत्ति को नुकसान पहुँचाना
नशीले पदार्थों का सेवन / डोपिंग
बिना सूचना अनुपस्थित रहना
कोच/प्रबंधन के निर्देशों की अवहेलना
किसी भी प्रकार का दुराचार

ऐसे मामलों की जांच एकेडमी की आंतरिक अनुशासन समिति द्वारा की जाएगी, और उनकी सिफारिश के आधार पर एकेडमी प्रमुख का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

4. मेडिकल फिटनेस एवं निरंतरता (Medical Fitness & Continuity)

बैडमिंटन एक उच्च-तीव्रता (High-Intensity) खेल है, जिसके लिए निरंतर फिटनेस आवश्यक है।

बार-बार चोटिल होने (Recurring Injuries)

लंबे समय तक प्रशिक्षण में अनुपस्थिति

मेडिकल रूप से उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण के लिए अनुपयुक्त पाए जाने

की स्थिति में, एकेडमी द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर खिलाड़ी की सीट अन्य योग्य खिलाड़ी को आवंटित की जा सकती है।

5. संसाधनों का उत्तरदायित्व (Resource Accountability)

एकेडमी में उपलब्ध सुविधाएं जैसे:

उच्च स्तरीय कोचिंग

जिम एवं स्पोर्ट्स साइंस सपोर्ट

किट एवं उपकरण

आवास (Hostel)

सरकारी निवेश के अंतर्गत आती हैं।

यदि किसी खिलाड़ी में समर्पण, अनुशासन या प्रशिक्षण के प्रति गंभीरता की कमी पाई जाती है, तो इसे सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग मानते हुए उसे एकेडमी से बाहर किया जा सकता है।

6. आचरण एवं संस्थागत प्रतिष्ठा (Conduct & Institutional Reputation)

प्रत्येक खिलाड़ी एकेडमी एवं राज्य का प्रतिनिधि होता है।

यदि किसी खिलाड़ी का व्यवहार, चाहे वह एकेडमी के अंदर हो या बाहर,

एकेडमी

या मध्य प्रदेश सरकार

की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाता है, तो उसे तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जा सकता है।

7. निष्कासन प्रक्रिया (Exit Procedure & Review Mechanism)

सभी मामलों की समीक्षा एक आंतरिक समीक्षा समिति द्वारा की जाएगी

खिलाड़ी को आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण का अवसर (Show Cause) दिया जा सकता है

समिति की सिफारिशों का दस्तावेजीकरण किया जाएगा

अंतिम निर्णय लेने की शक्ति एकेडमी प्रमुख एवं खेल विभाग के पास सुरक्षित रहेगी।

महत्वपूर्ण प्रावधान (Important Note)

यह नीति पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं उच्च प्रदर्शन मानकों को बनाए रखने के उद्देश्य से लागू की गई है। एकेडमी का लक्ष्य केवल प्रतिभा का चयन नहीं, बल्कि उत्कृष्टता का निरंतर विकास सुनिश्चित करना है।

37. Selection Committee Structure

S.No	Position	Members
1	Chief Selector – Foreign Badminton Expert	1
2	Chief Selector – Indian Badminton Expert	1
3	Coach-Selector (Male)	1
4	Coach-Selector (Male)	1
5	Coach-Selector (Female)	1
6	Strength & Conditioning Coach / Fitness Trainer	1
7	Secretary	1
8	Convener	1

Total Members: 8

38. Roles & Responsibilities

Chief Selector – Foreign Expert

- International standard evaluation
- Tactical एवं match analysis

Chief Selector – Indian Expert

- Domestic ranking एवं performance analysis

Coach-Selectors

- Skill एवं movement assessment
- Match observation

Strength & Conditioning Coach

- Fitness testing एवं data recording

Secretary

- Documentation एवं records maintenance

Convener

- Trial coordination एवं operational management
-

39. Selection Trial Score Sheet

Player Details

Field	Details
Player Name	_____
Category	_____
Gender	_____
Date of Birth	_____
District	_____
Contact Number	_____

Certificate Evaluation (30 Marks)

Certificate Achievement Marks

Certificate 1	_____	_____
Certificate 2	_____	_____
Certificate 3	_____	_____
Total	_____	/ 30

Fitness Test (30 Marks)

Test	Marks
30m Flying Start	_____ / 4
T-Test	_____ / 4
Standing Broad Jump	_____ / 4
1600m Run	_____ / 6
Sit-Ups	_____ / 3
Push-Ups	_____ / 3
Pull-Ups / Skipping	_____ / 3
Sit & Reach	_____ / 3
Total	_____ / 30

Skill Test (40 Marks)

Component	Marks
Stroke Accuracy	____ / 15
Footwork & Movement	____ / 15
Match Play	____ / 10
Total	____ / 40

Final Score Summary

Component Marks

Certificate	____ / 30
Fitness	____ / 30
Skill	____ / 40
Grand Total	____ / 100

40. Key Benefits

- Free Residential Training
- High-Performance Ecosystem
- Scientific Coaching System
- National एवं International Exposure
- Professional Tournament Planning
- International Standard Athlete Development